

3443

8. Write a short note on any **three** out of the following:

निम्नलिखित में से किसी तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

(a) Financial instruments

वित्तीय साधन

(b) Commercial papers

वाणिज्यिक पत्र

(c) Credit rating

ऋण रेटिंग

(d) Mudra financing

मुद्रा वित्तपोषण

[This question paper contains 4 printed pages]

Your Roll No. :

Sl. No. of Q. Paper : **3443** **I**

Unique Paper Code : 6132352402

Name of the Paper : Indian Financial System (NEP)

Name of the Course : **B.A.(VS) Insurance Management**

Semester : IV

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 90**

Instructions for Candidates :

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

(a) Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.

इस प्रश्न-पत्र के प्राप्त होने पर तुरंत शीर्ष पर अपना रोल नंबर लिखें।

(b) Attempt any **five** questions.

किसी भी पाँच प्रश्नों का उत्तर दें।

(c) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्न समान अंक के हैं।

1. What is a financial system? Discuss the components of a formal financial system. How is interaction among these components necessary?

वित्तीय प्रणाली क्या है? औपचारिक वित्तीय प्रणाली के घटकों की व्याख्या कीजिए। इन घटकों के बीच अंतःक्रिया क्यों आवश्यक है?

2. What are the benefits of an efficient money market? Discuss the role of the Reserve Bank of India in the Indian money market.

एक कुशल मुद्रा बाजार के क्या लाभ हैं? भारतीय मुद्रा बाजार में (Reserve Bank of India) की भूमिका का वर्णन कीजिए।

3. What is a capital market? How does it aid economic growth? What are the functions of the capital market?

पूंजी बाजार क्या है? यह आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक होता है? पूंजी बाजार के कार्यों की व्याख्या कीजिए।

4. What is commercial banking? Explain the different types of scheduled commercial banks and their importance in the Indian financial system.

वाणिज्यिक बैंकिंग क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए तथा भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए।

5. Define the concept of a mutual fund. Do you think mutual funds are beneficial for retail investors? If so, list the benefits.

म्यूचुअल फंड की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। क्या आप मानते हैं कि म्यूचुअल फंड खुदरा निवेशकों के लिए लाभदायक हैं? यदि हाँ, तो उनके लाभों को सूचीबद्ध कीजिए।

6. What are the factors affecting the choice of mutual funds? Explain the tax-saving scheme in case of mutual funds.

म्यूचुअल फंड के चयन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? म्यूचुअल फंड के संदर्भ में कर-बचत योजनाओं की व्याख्या कीजिए।

7. What are the reforms undertaken in the Indian financial system? Compare the pre-reform and post-reform scenarios.

भारतीय वित्तीय प्रणाली में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। सुधार-पूर्व और सुधार-पश्चात स्थितियों की तुलना कीजिए।